



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

2 पौष 1937 (श0)
(सं0 पटना 1361) पटना, बुधवार, 23 दिसम्बर 2015

बिहार विधान-सभा सचिवालय

अधिसूचना

7 अक्टूबर 2015

सं0 वि०स०(का०)-01/2014-1666/वि०स०।—सर्वसाधारण की जानकारी के लिए यह प्रकाशित किया जाता है कि पंचदश बिहार विधान-सभा के निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12-नरकटिया, 26-सुरसंड एवं 196-तरारी से निर्वाचित सदस्य क्रमशः श्री श्याम बिहारी प्रसाद, श्री शाहिद अली खान एवं श्री नरेंद्र कुमार पांडे उर्फ सुनील पाण्डेय द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 190(3)(ख) एवं बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-65 के अधीन दिनांक 06.10.2015 को सदन से अपने स्थान का त्याग करने का अपने अभिप्राय की सूचना दी गई है, जिसे माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा द्वारा स्वीकार किये जाने के फलस्वरूप निर्वाचन क्षेत्र संख्या 12-नरकटिया, 26-सुरसंड एवं 196-तरारी दिनांक-06.10.2015 से रिक्त हो गया है।

तदनुसार बिहार विधान-सभा के माननीय सदस्यों की सूची को इस हद तक संशोधित समझा जाय।

माननीय अध्यक्ष, बिहार विधान-सभा के आदेश से,

राजीव कुमार,

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान-सभा, पटना।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 1361-571+20-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>